

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 30, 1981/वैशाख 10, 1903
No. 7] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 1981/VAISAKHA 10, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली 27 अप्रैल, 1981

आ० अ० 2(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 (1950 का 43) की धारा 13(ब)
की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग यह निवेश देता है कि उसकी
तारीख 30 अगस्त 1979 की अधिसूचना संख्या 429/दिल्ली/79 में निम्नलिखित संशोधन धारा
लिए जाएंगे, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में 2-दक्षिण दिल्ली, 4-पूर्व दिल्ली तथा 7-करोल
बाग (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के नामों के विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर क्रमशः नीचे
दी गई प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी:—

2-दक्षिण दिल्ली

श्री जी० एस० जैया,
उप-खण्ड मजिस्ट्रेट,
न्यू कोर्टस बिल्डिंग,
सीस हजारी, दिल्ली।

4-पूर्व दिल्ली	श्री बी० एस० राना, उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, शाहदरा कोर्ट, दिल्ली।
7-करोल बाग (अ०जा०)	श्री विवेक राव, उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, पंजाबी बाग, न्यू कोर्टस बिल्डिंग टीस हजारी, दिल्ली।

[संख्या 429/दिल्ली/79]

श्री० ना० नागर, प्रवर सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 1981

O.N. 2 (E).—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 13B of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission hereby directs that the following further amendments shall be made in its notification No. 429/DL/79, dated 30th August, 1979, namely :—

In the second column of the Table appended to the said Notification, for the existing entries against '2' South Delhi '4 East Delhi' and '7' Karol Bagh (S.C.) Parliamentary constituencies, the entries shown below against them shall respectively be substituted :—

2-South Delhi	Shri G.S. Janya, S.D.M., Patel Nagar, New Courts Building, Tis Hazari, Delhi.
4-East Delhi	Shri B.S. Rana, S.D.M. Shahdara, Shahdara Courts, Delhi.
7-Karol Bagh (S.C.)	Shri Vivek Rao, S.D.M. Punjabi Bagh, New Courts Building, Tis Hazari, Delhi.

[No. 429/DL/79]

O.N. NAGAR, Under Secy